



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 152] मई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 1977 वैशाख 19, 1899

No. 152] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 1977/VAISAKHA 19, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

NOTIFICATION

Customs

New Delhi, the 9th May 1977

G.S.R. 226(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No 49-Customs, dated the 9th April, 1977, namely—

In the said notification, for the Schedule, the following shall be substituted, namely—

"THE SCHEDULE

- 1 Tea bags.
- 2 Package tea not exceeding one kilogram net of tea.
3. Instant tea

Explanation—In this notification—

- (1) 'tea bag' means a pouch or a folded bag made of porous filter paper or nylon mesh containing not more than 5 grams net of tea per bag for direct infusion along with the said porous material,

- (2) 'package tea' means tea packed in unit packs or containers of a type as are ordinarily put up for retail sale under a registered brand name and includes packages known as 'Jota' of two packs packed together in which the net weight of tea contained in the basic pack unit does not exceed one kilogram.

[No. 55/F No. 347/7/77-TRU]

JOSEPH DOMINIC, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 9 मई, 1977

सा० का० नि० 226(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 49 सी० शु० तारीख 9 अप्रैल, 1977 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“अनुसूची

1. चाय की थैली ।
2. पैकेज चाय, जिसमें चाय की मात्रा एक किलोग्राम से अधिक न हो ।
3. तुरन्त तैयार (इन्स्टैंट) चाय ।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में—

- (1) “चाय की थैली” से अभिप्रेत है ऐसी थैली या तहदार थैली, जो ऐसे रन्ध्रयुक्त फिल्टर पेपर या नायलॉन मेश की बनी हो जिसमें उक्त रन्ध्रयुक्त उपादान सहित सीधे फ्यूजन के लिए प्रति थैली अधिक से अधिक 5 ग्राम शुद्ध चाय हो ।
- (2) “पैकेज चाय” से यूनिट पैको में या ऐसे टाइप के आधानों में पैक की गई चाय अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम से खुदरा बिक्री के लिए साधारणतया रखे जाने हैं, और इसके अन्तर्गत ऐसे दो पैको का ‘जोटा’ नामक पैकेज भी है, जो एक साथ पैक किए गए हैं और जिसमें मूल पैक यूनिट में भारी चाय का शुद्ध भार एक किलोग्राम से अधिक नहीं है ।

[सं० 55/एफ० सं० 347/7/77-टी आर यू०]

जोसेफ डॉमिनिक, अव्वर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977